



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 532] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 1, 1981/अग्रहायण 10, 1903
No 532] NEW DELHI, TUESDAY, DEC 1, 1981/AGRAHA YANA 10, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ सख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

कृषि मंत्रालय
(खाद्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 1 दिसम्बर, 1981

का.आ. 859(अ).—चीनी उपक्रम (प्रबन्ध ग्रहण) अध्यादेश, 1978 (1978 का 5) की धारा 3 की उपधारा (2) क खड (ख) की अधीन उत्तर प्रदेश राज्य के मुरावाबाद जिले में राजा का सहम्पूर स्थित चीनी का विनिर्माण करने वाले अयोध्या चीनी मिल का प्रबन्ध, भारत सरकार के भूतपूर्व कृषि और सिंचाई मंत्रालय (खाद्य विभाग) के आदेश में का आ 695(अ), 1 दिसम्बर, 1978 द्वारा, (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) 2 दिसम्बर, 1978 से प्रारम्भ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए केन्द्रीय सरकार में निहित कर दिया गया था,

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में यह समीचीन है कि उक्त चीनी मिल का प्रबन्ध, 1 दिसम्बर, 1984 तक और इस तारीख को सम्म-

चित करते हुए तीन वर्ष की और अवधि के लिए कन्द्रीय सरकार में निहित बना रहेगा ;

अतः अब कन्द्रीय सरकार चीनी उपक्रम (प्रबन्धग्रहण) अधिनियम 1978 (1978 का 49) की धारा 3 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि उक्त चीनी मिल का प्रबंध, 1 नवम्बर, 1984 तक और इस तारीख को सम्पन्नित करते हुए, तीन वर्ष की और अवधि के लिए कन्द्रीय सरकार में निहित बना रहेगा ।

[फा.सं. 1-9/81-रा.ची.उ.]

सी. एन. राघवन, सयुक्त सचिव

**MINISTRY OF AGRICULTURE
(Department of Food)**

ORDER

New Delhi, the 1st December, 1981

S.O. 859(E).—Whereas by the order of the Government of India in the erstwhile Ministry of Agriculture and Irrigation (Department of Food), No. S.O. 695(E), dated the 1st December, 1978, (hereinafter referred to as the said order) the management of the Rajahmundry Sugar Mills manufacturing sugar at Raja-Ka-Sahaspur in the District of Motilalabad in the State of Uttar Pradesh was vested in the Central Government under clause (b) of sub-section (2) of section 3 of the Sugar Undertakings (Taking Over of Management) Ordinance, 1978 (5 of 1978), for a period of three years commencing on and from the second day of December, 1978 ;

And whereas the Central Government is of the opinion that it is expedient in the public interest that the management of the said sugar mill shall continue to vest in the Central Government for a further period of three years up to and inclusive of the 1st December, 1984 ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (5) of section 3 of the Sugar Undertakings (Taking Over of Management) Act, 1978 (49 of 1978), the Central Government hereby directs that the management of the said sugar mill shall continue to vest in the Central Government for a further period of three years up to and inclusive of the 1st December, 1984.

[F. No. 1-9/81-NSU]

C. N. RAGHAVAN, Jt. Secy.